



भारत पर्यटन विकास निगम लि.

India Tourism Development Corporation Ltd.

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Government of India Undertaking)

सीआईएन: एल74899डीएल1965जीओआई004363

वेबसाइट: www.itdc.co.in

तारीख

Date 15.02.2022

निर्देश

Reference

एसईसी: कॉर्ड:134

प्रबंधक सूचीकरण विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 स्क्रिप सिंबल - आईटीडीसी (ईक्यू)	प्रबंधक, कॉर्पोरेट सेवा विभाग बीएसई लिमिटेड, मुंबई फ्लोर 25, पी जे टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुंबई- 400 001 स्क्रिप कोड: 532189
--	--

विषय: 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही और नौ माह के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों से संबंधित समाचार-पत्र विज्ञापन प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

यथा संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के नियम 47 के अनुसरण में, 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही और नौ माह के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों से संबंधित समाचार-पत्र में विज्ञापन की प्रतियां इसके साथ संलग्न हैं। ये विज्ञापन 15 फरवरी, 2022 को "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" (अंग्रेज़ी में), "हिंदुस्तान टाइम्स" (अंग्रेज़ी में) और "हिंदुस्तान" (हिंदी में) समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए।

कृपया उपर्युक्त सूचना को रिकॉर्ड में नोट किया जाए।

इसे कंपनी की वेबसाइट <https://itdc.co.in/> पर भी प्रदर्शित किया गया है।

धन्यवाद,

कृते भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

ह/-

वी के जैन

कंपनी सचिव

PC Jeweller Limited

Extract of un-audited consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2021

S. No.	Particulars	(₹ in crores)		
		Quarter Ended 31.12.2021	Nine Months Ended 31.12.2021	Quarter Ended 31.12.2020
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1.	Total Income from Operations	610.98	1417.50	1467.21
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(90.92)	(235.46)	122.31
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(90.92)	(235.46)	122.31
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(73.57)	(218.02)	129.64
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(75.47)	(216.16)	128.11
6.	Equity Share Capital	465.40	465.40	395.07
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)			
1. Basic:		(0.16)	(0.47)	3.28
2. Diluted:		(0.16)	(0.47)	3.27

Key figures of un-audited standalone financial results:

S. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2021	Nine Months Ended 31.12.2021	Quarter Ended 31.12.2020
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1.	Total Income from Operations	600.18	1405.06	1372.62
2.	Net Profit for the period before tax	(94.05)	(229.35)	102.39
3.	Net Profit for the period after tax	(76.06)	(210.59)	110.14

Note:
The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2021 are available on the websites of BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of the Company at the URL https://corporate.pcjeweller.com/financial-results-and-annual-report/.

For and on behalf of the Board
PC Jeweller Limited
Sd/-
Balram Garg
(Managing Director)
DIN: 00032083

Place: New Delhi
Date: February 14, 2022

Regd. Office: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi - 110092, CIN: L36911DL2005PLC134929
Phone: 011-49714971, Fax: 011-49714972, Website: www.pcjeweller.com, e-mail: info@pcjeweller.com



Haldia Energy Limited
CIN: U74210WB1994PLC066154
Regd. Office: 2A, Lord Sinha Road, First Floor, Kolkata-700071, West Bengal, India

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING (ICB)
for WET LIMESTONE BASED FLUE GAS DESULPHURISATION SYSTEM AND AUXILIARIES (WLFGD)

Haldia Energy Limited (HEL) intends to set up Wet Limestone Based Flue Gas Desulphurisation (WLFGD) System and Auxiliaries for its 2X300 MW Coal Based Thermal Power Plant at Haldia, Purba Medinipur, West Bengal, India. HEL invites sealed bids through ICB mode from eligible bidders for the following Tender:

Tender No: HEL-FGD-MPS-01:Supply of Main Plant Equipment for WLFGD System and Auxiliaries
For scope of work and other terms and conditions of NIT, please visit our website: www.haldiaenergy.co.in

DR. M. INDUSCORP LIMITED				
Regd. Office: 18B/1, Ground Floor, Dev Nagar, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, Tel.: +91-11-28716806 CIN: L01119DL1986PLC023698 Website: www.drinduscorp.com; Email: drmsy@gmail.com				
Extract of the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2021				
Sl. No.	Particulars	3 months ended 31.12.2021	9 months ended 31.12.2021	Corresponding 3 months ended 31.12.2020
1.	Total income from operations (Net)	19.63	44.44	14.32
2.	Net Profit/(Loss) before exceptional items and tax	(3.36)	(7.91)	(5.18)
3.	Net Profit/(Loss) after exceptional items and tax	(3.36)	(7.91)	(5.18)
4.	Total Comprehensive Income	(3.36)	(7.91)	(5.18)
5.	Paid - up equity share capital (Face Value of the Share Rs. 10/- each)	*763.02	*763.02	*763.02
6.	Reserves excluding Revaluation Reserve	0.00	0.00	0.00
7.	Earnings per share:			
a)	Basic	0.00	0.00	0.00
b)	Diluted	0.00	0.00	0.00

*The Share Capital includes amount of Rs. 7 Lacs against shares forfeited.

Note:

a) The above is an extract of the detailed format of the Statement of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 14/02/2022. The full format of the Statement of Unaudited Financial Results is available on the Company's website (www.drinduscorp.com) and on the website of Stock Exchange i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.mseil.in).

b) The Limited Review, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed and the related Report does not have any impact on the above 'Results and Notes' for the Quarter ended, 31st December 2021 which needs to be explained.

c) The figures of the previous period/year have been regrouped/recast wherever considered necessary, to conform to the current year classifications.

By the Order of the Board
Sd/-
[PREM PRAKASH]
MANAGING DIRECTOR
DIN: 00289179

Place: New Delhi
Date: 14th February, 2022

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



India Tourism Development Corporation Limited

(A Government of India Undertaking)

Regd. Office: SCOPE Complex, Core-8, 6th Floor, 7 Lodhi Road, New Delhi-110003

Telefax: 011-24360249 Website: www.itdc.co.in CIN: L74899DL1965GOI004363

Extracts of Statement of Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results for the 3rd quarter ended 31.12.2021 (₹ in Lakhs)

Particulars	Standalone						Consolidated					
	Quarter ended 31.12.21 Un-Audited	Quarter ended 30.09.21 Un-Audited	Quarter ended 31.12.20 Un-Audited	Nine Months ended 31.12.21 Un-Audited	Nine Months ended 31.12.20 Un-Audited	Year ended 31.03.21 Audited	Quarter ended 31.12.21 Un-Audited	Quarter ended 30.09.21 Un-Audited	Quarter ended 31.12.20 Un-Audited	Nine Months ended 31.12.21 Un-Audited	Nine Months ended 31.12.20 Un-Audited	Year ended 31.03.21 Audited
Total income from operations	8,821.94	6,843.16	4,569.97	20,093.71	10,264.51	17,576.09	8,983.53	6,961.18	4,645.15	20,391.29	10,359.74	17,686.81
Other Income	375.54	310.87	349.43	997.52	988.52	2,145.88	353.91	278.20	351.21	945.04	993.99	1,695.22
Total Income	9,197.48	7,154.03	4,919.40	21,091.23	11,253.03	19,721.97	9,337.44	7,239.38	4,996.36	21,336.33	11,353.73	19,382.03
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extra Ordinary Items)	699.90	168.35	(812.10)	885.50	(3,902.34)	(2,702.21)	671.17	133.78	(886.56)	743.56	(4,183.45)	(3,532.51)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra Ordinary Items)	736.03	204.66	(849.19)	959.66	(3,815.98)	(2,395.86)	707.59	170.09	(923.65)	817.72	(4,097.09)	(3,371.54)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra Ordinary Items*)	121.31	407.22	(972.13)	307.04	(4,205.55)	(2,737.25)	93.78	371.99	(1,044.63)	164.85	(4,480.79)	(3,714.94)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	136.76	184.27	(1,044.48)	124.48	(4,150.14)	(2,600.82)	111.49	159.70	(1,079.14)	27.62	(4,261.64)	(3,336.13)
Paid up Equity Share Capital	8,576.94	8,576.94	8,576.94	8,576.94	8,576.94	8,576.94	8,576.94	8,576.94	8,576.94	8,576.94	8,576.94	8,576.94
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)						23,433.66						20,098.88
Earnings Per Share (after extra-ordinary item) (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- Basic & Diluted:	0.16	0.47	(1.22)	0.14	(4.84)	(3.03)	0.13	0.19	(1.26)	0.03	(4.96)	(3.89)

Includes Net Profit of Continued and Discontinued Operations

Note:

1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange(s) Website (www.bseindia.com) & (www.nseindia.com) and on the Company's Website (www.itdc.co.in)

2) The Financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended.

3) The Above Statement of Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 14th February, 2022.

4) Earning per share is not annualized for the quarter ended December 31, 2021, September 30, 2021, and December 31, 2020.

5) Figures of the previous reporting periods have been re-grouped / re-classified wherever necessary to correspond with the figures of the current reporting period.

For India Tourism Development Corporation Limited
Sd/-
Subhadeepa Paul
Chief Financial Officer
Sd/-
Piyush Tiwari
Director (Commercial & Marketing)

Date: 14.02.2022
Place: New Delhi

(One stop solution for all your Travel, Tourism and Hospitality needs)

POWERING HIGH FASHION BRANDS WITH UNMATCHED EXCELLENCE

Revenue 812.63 Million
EBITDA 123.61 Million
PAT 65.10 Million



R & B DENIMS LIMITED

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2021 (Rs. in Lakhs, except per share data)

Sr. No.	Particulars	Standalone			Year ended 31.03.2021	Consolidated			Year ended 31.03.2021
		Three months ended 31.12.2021	Three months ended 30.09.2021	Three months ended 31.12.2020		Three months ended 31.12.2021	Three months ended 30.09.2021	Three months ended 31.12.2020	
1.	Total Income from Operations	8368.94	6,510.62	6,193.24	19,588.36	9,495.33	17,766.37	8,126.30	6,544.17
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	776.38	687.47	553.04	1,885.47	313.59	1,015.99	885.84	722.20
3.	Net Profit for the period (before Tax after Exceptional and/or Extraordinary items)	776.38	687.47	553.04	1,885.47	313.59	1,015.99	885.84	722.20
4.	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	599.99	522.30	477.73	1,443.73	257.77	832.49	651.01	543.66
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) & Other Comprehensive Income (after tax))	600.05	523.75	480.92	1,449.15	266.57	846.16	650.95	545.52
6.	Equity Share Capital (FV Rs. 2 Per share)	1399.47	1399.47	1399.47	1399.47	1399.47	1399.47	1399.47	1399.47
7.	Other Equity	-	-	-	-	-	2,912.46	-	-
8.	Earnings per equity share (Face value of Rs. 2/- each)								
- Basic		0.86	0.75	0.68	2.06	0.37	1.19	0.93	0.78
- Diluted		0.86	0.75	0.68	2.06	0.37	1.19	0.93	0.78

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Third Quarter and Nine months ended 31st December, 2021 unaudited Standalone & consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure of Requirements) Regulations 2015, as amended. The full format of the same is available on the website of the stock exchange at (www.bseindia.com) and also on the company's website at www.rmbdenims.com.
2. The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14th February, 2022. These results have been subjected to a limited review by the Statutory Auditors of the Company.

Date: 14/02/2022
Place: Surat

R & B DENIMS LIMITED | (CIN: L17120GJ2010PLC062949) | **Registered Office:** Block No. 467 Sachin Palsana Road, Palsana Surat-394315
Tel: +91 96012-81648 | **Website:** www.rmbdenims.com | **Email:** info@rmbdenims.com

For R & B DENIMS LIMITED
Sd/-
Rajkumar Borana (Managing Director)
DIN: 01091166



NBCC (INDIA) LIMITED
(A Govt. of India Enterprise), A Navratna Company
Regd. Address: NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003
CIN: L74899DL1960GOI003335
www.nbccindia.in

CREATING EXCELLENCE, MAKING A DIFFERENCE

Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter & Nine Months Ended on December 31, 2021 (₹ in Lakhs)

Particulars	Consolidated					Standalone				
	Quarter Ended on		Nine Months Ended on		Year Ended on 31.03.2021	Quarter Ended on		Nine Months Ended on		Year Ended on 31.03.2021
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from Operations (Net)	2,00,905.46	2,10,361.29	5,30,841.79	4,16,463.21	6,83,206.50	1,50,864.71	1,50,836.58	3,74,636.47	2,95,146.38	4,94,745.20
Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities before Tax (before Exceptional Items)	11,736.17	10,675.96	26,499.07	17,561.72	28,710.75	9,377.84	8,497.14	21,591.85	14,259.35	24,444.76
Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities before Tax (after Exceptional Items)	11,736.17	10,675.96	26,499.07	17,561.72	28,710.75	9,377.84	8,497.14	21,591.85	14,259.35	24,444.76
Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities after Tax (after Exceptional Items)	8,703.12	9,698.31	19,876.99	15,287.88	23,624.45	6,934.78	8,188.68	16,220.89	12,394.29	20,174.36
Total Comprehensive Income after taxes and Non Controlling Interest	8,301.61	9,334.20	19,087.19	14,201.16	21,168.00	6,931.23	8,181.42	16,215.47	12,384.94	19,219.64
Paid up Equity Share Capital	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
Reserves excluding Revaluation Reserve as per Balance Sheet of previous accounting year					1,45,718.93					1,51,150.15
"Earnings Per Share (from continuing & discontinuing Operations) (of ₹ 1/- each) (Not Annualised):"										
(a) Basic (in ₹)	0.46	0.52	1.06	0.79	1.23	0.39	0.45	0.90	0.69	1.12
(b) Diluted (in ₹)	0.46	0.52	1.06	0.79	1.23	0.39	0.45	0.90	0.69	1.12

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on February 14, 2022.
The financial results for the nine months and quarter ended on December 31, 2021 have been limited reviewed by statutory auditors of the company as well as group.
Figures for the quarter ended December 31, 2021 are the balancing figures between figures in respect of the nine months ended on December 31, 2021 and the published figures for the six months ended on September 30, 2021 of the current financial year.
Comparative figures have been regrouped/recasted/rearranged wherever deemed necessary to conform to current period classification and negative figures have been shown in brackets.

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the stock exchange websites (www.bseindia.com / www.nseindia.com) and Company's website (www.nbccindia.in)

For and on behalf of
NBCC (INDIA) LIMITED
Sd/-
(P. K. Gupta)
Chairman & Managing Director

Place: New Delhi
Date: February 14, 2022

SKILL UNIV BEGINS
OFFLINE CLASSES IN
ALL 15 CAMPUSES

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Skill and Entrepreneurship University (DSEU), which admitted its first batch last year with online sessions from December last year, began offline classes for students in all 15 campuses from Monday. Vice-chancellor Neharika Vohra said the varsity had redesigned its programmes for more hands-on and experiential learning in the past few months. "For months, the entire DSEU family has been working towards making the programmes function efficiently. Meanwhile, we have been working on ensuring support infrastructure for all diploma and degree programmes at all our campuses. It was overwhelming to see our students on the campus today," said Vohra. Ashwani Kansal, registrar, DSEU, said that all 15 campuses of the university will be regularly sanitised in compliance with covid protocols to ensure the safety of students.

LHMC DOCTORS
SAY SALARIES CUT
OVER PROTESTS

NEW DELHI: Days after junior doctors of Delhi government-run GTB Hospital and IHBAS complained that their salaries were deducted for participating in protests to expedite the National Eligibility-cum-Entrance Test (postgraduate) counselling last year, the doctors of Lady Harding Medical College (LHMC) and affiliated hospitals have written to Union health minister Mansukh Mandaviya stating that they, too, have not received salaries for the protest period despite assurances to the contrary. "...they have told us that until they get a written communication from the government, they cannot release the salaries. Hundreds of resident doctors...have been affected," said Dr Rakesh Bagdi, a senior resident doctor. Hospital authorities did not respond to requests seeking comment.

Simian survey to rely on face
recognition for precise count

Jasjeev Gandhiok
jasjeev.gandhiok@hindustantimes.com

NEW DELHI: A proposed census of the simian population in Delhi that will help tackle the monkey menace in the capital will likely use facial recognition technology so that the same monkey is not counted twice, officials claimed on Monday. A fresh proposal to this effect has been prepared by the Wildlife Institute of India and submitted by the Delhi forest and wildlife department to Gopal Rai, Delhi's environment minister, for approval. The department, in December asked WII to create a fresh plan. In 2019, a five-year plan to carry out a census was approved by the Delhi government and was due to start from April 2021. The plan, which would have cost around ₹12 crore, was delayed due to the Covid-19 pandemic and later scrapped. "A fresh plan was sought from WII and this has now been shared with the environment minister for approval," a forest department official said, requesting anonymity.

Delhi's monkey menace

- Monkeys have been shifted to the Asola Bhatti wildlife sanctuary since 2007, following an HC order that deemed the problem 'uncontrollable'.
- Around 25,000 monkeys have been transferred to the sanctuary. However a figure on Delhi's monkey population does not exist, with no past census conducted.

How will the census be done?

- An app to be used, along with camera traps. Multiple photographs of monkeys in different areas will be analysed using software
- Facial detection technology will ensure the same monkey is not counted twice
- The public can also download the app and submit photographs, along with information on areas with a high monkey population

ity. "Once the cabinet clearance is received, it (the census) will be carried out for a period of one year, during which data will be gathered from different parts of Delhi, using assistance from the public too." The plan aims to use an app being developed by WII, which can be downloaded by the general public, to help count monkeys. "The app will be using a feature that will allow the software to recognize if the same monkey has already been counted or not," the official claimed. "The general public can also, based on the features of the app, submit photographs of monkeys and contribute to the existing data, as well as alert us about areas where the monkey population is high." There are an estimated 25,000 monkeys in the Asola Bhatti Wild-

life Sanctuary alone, with any monkey caught in Delhi transported there, as per a 2017 Delhi high court order. The order also mandates the forest and wildlife department to feed the monkeys, a task that costs the department ₹8 lakh every month. The monkeys have been escaping from the sanctuary and moving to nearby urban areas, especially around south Delhi, creating a nuisance, residents complain. A capture and recapture methodology could be utilised to record monkeys in a particular area, using a combination of camera shots that can first be analysed by a software, followed by expert analysis, said Faiyaz Khudsar, scientist-in-charge at the Yamuna Biodiversity Park. "Unlike tigers, which have distinct patterns and face markings, monkeys can largely be differentiated based on their body size and facial features. Cameras can be put in different areas, possibly even feeding points, with several shots to be captured by a camera and the parameters to be assessed can be analysed by a software," Khudsar said.

{ CHANDNI CHOWK }

Traders, North MCD at odds
over conversion charge plan

Sanjeev K Jha
sanjeev.jha@hindustantimes.com

NEW DELHI: The North Delhi Municipal Corporation's move to collect conversion charges—a one-time fee for using residential complexes for commercial purposes—from some traders in Chandni Chowk area, also known as 'Delhi-6', has drawn criticism from businesses in the area which claim they are exempt since they fall in the special zone. The North MCD, however, insists that only shops registered before 1962 are exempt from conversion charges. Bharat Ahuja, president of the Delhi Electrical Traders' Association, said some traders of Bhagirath Palace and Azad Market recently received notices to pay conversion charges. "These charges are collected by civic bodies whenever there is a change in land-use of any particular area. Everyone knows that this area was commercial since the Mughal period and it comes under the special zone. The Delhi Development Authority (DDA) is also all set to include this area in its Mas-



At Chandni Chowk.

ter Plan. The North MCD has no legal right to ask the traders to pay such charges," he said. He further said that on March 3, 2008, the Supreme, noting the "accepted position that no registration of commercial establishments in special areas is required in view of the Master Plan Delhi (MPD-2021) provisions", disposed off petitions requesting the same. "Clause 16.2 of MPD 2021 says that owners/occupiers of the properties in special areas using them for commercial activities are not required to be registered and pay consequential conversion and car parking charges," he added. Sanjay Bhargava, the president of Chandni Chowk Sarv Vyapar Mandal, accused the North MCD

of harassing traders in the name of conversion charges. "The North MCD is sending notices to commercial markets. These markets are commercial since their inception. So asking for such charges is plain harassment. Because of the MCD's greed, they have not regularised many buildings. DDA has already passed a notification in 2018 against the civic bodies for seeking conversion charges in such markets," he said. He cited another order passed by a triple bench of the Supreme Court in May 2007, which said "in the view of the stipulations in the Master Plan, there shall not be any registration of the establishments as it is in Special Area (sic)", Bhargava said North MCD issued the notices for conversion charge without getting that order cancelled. A senior North DMC official said that all the traders of Delhi have to pay conversion and parking charges, irrespective of the areas where they operate. "According to the Master Plan...shops that came up after 1962 have to deposit all the charges," the official said, asking not to be named.

{ RECORDS VIDEO BEFORE SUICIDE } NO EXCESS ALLEGED

'Family humiliated': Man kills self
after being taken to police station

HT Correspondent
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: A 20-year-old man allegedly died by suicide at his house in west Delhi on Sunday, after recording a video on his phone in which purportedly said that he was "depressed after being taken to a police station in connection with a case". Although the man does not allege any excesses by the police in the video, he said the social image and honour of his parents has been hit because he was taken to a police station. He also says that nobody is responsible for the act. The police said the man was taken to the police station on Feb-

POLICE SAID THE
MAN WAS TAKEN
TO THE STATION
TO HELP IDENTIFY
AN ACCUSED IN A
SNATCHING CASE

ruary 13 to help identify an accused involved in a mobile phone snatching case reported from Mayapuri area on January 3. Police probe showed that the user of the stolen phone was in contact with the victim. "He was reportedly called to help police identify the accused who was using the stolen phone.

Based on the identification, the suspect was arrested and the phone was recovered. The man was previously involved in a robbery case," said additional deputy commissioner of police (west) Prashant Gautam. According to Gautam, after the identification of the suspect, the man left for his house. Later in the evening he recorded a video on his phone, in which he allegedly said that he killed himself, as he could not bear the humiliation to his family.

HELP IS JUST A CALL AWAY
SNEH: 011-65978181
SUMAITRI: 011-23389090

Karol Bagh likely to get waste-to-art park;
to be spread over 9 acres, will cost ₹27 cr

Paras Singh
paras@hindustantimes.com

NEW DELHI: Delhi may get another theme park in the heart of the city's commercial hub in Karol Bagh. The North Delhi Municipal Corporation is planning to set up its own waste-to-art facility 'World park project' in Ajmal Khan Park in Karol Bagh area. The facility, inspired by South MCD's waste-to-art parks, will be spread over nine acres and is expected to cost around ₹27.14 crore, a senior official from the horticulture department of the North body said. The World Park will feature 25 replicas of iconic monuments and structures from all around the

world. Municipal commissioner Sanjay Goel has conveyed the project details of the ambitious project to the standing committee for further through a letter dated January 14, 2022. HT has seen a copy of the park's detailed project report. Goel has proposed 13 three-dimensional structures which will be re-created using scrap, and another 12 structures that will be developed in two dimensional replicas. Some of the key attractions of the park will include replicas of The Great Sphinx at Giza (Egypt), The Great Wall of China, The Great Buddha of Kamakura from Japan, The Sydney Opera House, The Little Mermaid from Copenhagen (Denmark), Sagrad Familia

in Barcelona (Spain), Brandenburg gate from Berlin, Stonehenge (Wiltshire, England), Pompeii from Rome, The Louvre (Paris), Easter Island in Polynesian Triangle of Chile and The Trevi Fountain in Rome. "The list of 3D replicas includes a replica of Statue of Unity Sardar Vallabhbhai Patel from Gujarat which is the world's tallest statue and is a wonder of the world in its own right," official stated. Other structures include Angkor Wat, The Forbidden City, Hagia Sophia and Mount Rushmore. In the letter to the standing committee, Goel said large amount of waste such as old vehicles dumped in the municipal yards may be used to create the park

on the lines of SDMC's Waste to Wonder Park located in Sarai Kale Khan. A north MCD official said that Ajmal Khan park is spread over an area of 24 acres. "Surrounded by dense residential and commercial areas, Ajmal Khan park has great potential for tourism development. The theme park will also increase tourist arrivals and boost trade and commerce in the surrounding areas. The project is proposed to be executed on build-finance-operate and transfer basis with a private player being allowed to run it for 20 years. The consultant has submitted the project report, and the matter is likely to be taken up in next standing committee," official added.



DELHI JAL BOARD, GOVT OF N.C.T. OF DELHI
OFFICE OF THE DY. SE (WB)-II
C/o ACE (WB)-II, 3rd Floor, Varunalya Ph-I, NEW DELHI-110005



रमेश कुमार शर्मा जी जी

NIT NO. 8/DY/SE (WB)-II(2021-22)						
S. No.	Name of Work	Estimated Contract Value (ECV)/Amount put to tender	Earnest Money (EMD)	Tender Fee	Date of Release of tender in E-Procurement Solution & Tender ID No.	Last Date/Time of receipt of tender E-Procurement Solution
1.	Providing & laying 600 mm dia D.I. pipe for supply of treated effluent from Okhla Ph. VI STP to NTPC Eco park Badapur under ACE(E&M)-I.	Rs. 11,65,49,340/- for civil and item rate for E&M	Rs. 25,62,000/-	Rs. 1500/-	11.02.2022 2022_DJB_216628_1	03.03.2022 at 3.05 PM

Further details in this regard can be seen at <https://govtprocurement.delhi.gov.in>

ISSUED BY P.R.O. (WATER)
Advt. No. J.S.V. 1125 (2021-22)

"STOP CORONA: WEAR FACE MASK, FOLLOW PHYSICAL DISTANCING, MAINTAIN HAND HYGIENE"

Dy. S.E. (WB)-II



DELHI JAL BOARD

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-VIII

SEWAGE TREATMENT PLANT (WSTP), DWARKA SECTOR-16D

PAPPAN KALAN, NEW DELHI-110078

Email: eesdw8@gmail.com



PRESS NIT NO. 19 (2021-22)/EE (SDW) VIII

S. No.	Name of work	Estimate cost	E/Money	Tender Fee	Date of release of tender in e-procurement solution	Last date/time of receipt of tender through e-procurement solution
1.	Augmentation/up-gradation of various existing STPs in Delhi (package-1)	465.3 Cr	2.70 Cr.	1500/-	2022_DJB_216643_1 Dt. 11.02.2022	18.03.2022 at 3.00 P.M.

Further details in this regard can be seen at (<https://govtprocurement.delhi.gov.in>)

ISSUED BY P.R.O. (WATER) **Stop Corona: Wear Mask, Follow Physical Distancing and Maintain Hygiene**

Advt. No. J.S.V. 1124 (2021-22)

(J.C. Garg)
EE (SDW)VIII

UTTAR PRADESH MEDICAL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A Government of Uttar Pradesh Undertaking)

Tender Notice
Tender Ref. No: UPMSCL/Drugs-163/542 Dated: 11 February, 2022
e-TENDER FOR SUPPLY OF DRUGS
Online tenders are invited from licensed manufacturers for supply of drugs to UPMSCL. The details of tender, list of items and Tender Documents are made available on website <https://etender.up.nic.in> and www.upmsc.in. The last date/time of online submission of the tender documents is **26 February 2022 upto 15:00 Hrs.**
Managing Director
UPMSCL Lucknow, Uttar Pradesh
Department of Medical Health and Family Welfare, U.P.

Uttar Pradesh MSCL
(CIN:U85310UP2018SGC102426)
(A Government of Uttar Pradesh Undertaking)

TENDER NOTICE
Tender Ref. No: UPMSCL/Drugs-164/ 540 Dated: 11 February, 2022
e-TENDER FOR SUPPLY OF DRUGS
Online tenders are invited from licensed manufacturers for supply of drugs to UPMSCL. The details of tender, list of items and Tender Documents are made available on website <https://etender.up.nic.in> and www.upmsc.in. The last date/time of online submission of the tender documents is **25 February, 2022 upto 15:00 Hrs.**
Managing Director
Department of Medical Health & Family Welfare,U.P.

India Tourism Development Corporation Limited
(A Government of India Undertaking)
Regd. Office: SCOPE Complex, Core-8, 6th Floor, 7 Lodhi Road, New Delhi-110003
Telefax: 011-24360249 Website: www.itdc.co.in CIN: L74899DL1965GOI004363

Extracts of Statement of Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results for the 3rd quarter ended 31.12.2021
(₹ in Lakhs)

Particulars	Standalone					Consolidated						
	Quarter ended 31.12.21 Un-Audited	Quarter ended 30.09.21 Un-Audited	Quarter ended 31.12.20 Un-Audited	Nine Months ended 31.12.21 Un-Audited	Nine Months ended 31.12.20 Un-Audited	Year ended 31.03.21 Audited	Quarter ended 31.12.21 Un-Audited	Quarter ended 30.09.21 Un-Audited	Quarter ended 31.12.20 Un-Audited	Nine Months ended 31.12.21 Un-Audited	Nine Months ended 31.12.20 Un-Audited	Year ended 31.03.21 Audited
Total income from operations	8,821.94	6,843.16	4,569.97	20,093.71	10,264.51	17,576.09	8,983.53	6,961.18	4,645.15	20,391.29	10,359.74	17,686.81
Other Income	375.54	310.87	349.43	997.52	988.52	2,145.88	353.91	278.20	351.21	945.04	993.99	1,695.22
Total Income	9,197.48	7,154.03	4,919.40	21,091.23	11,253.03	19,721.97	9,337.44	7,239.38	4,996.36	21,336.33	11,353.73	19,382.03
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extra Ordinary Items)	699.90	168.35	(812.10)	865.50	(3,902.34)	(2,702.21)	671.17	133.78	(886.56)	743.56	(4,183.45)	(3,532.51)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra Ordinary Items)	736.03	204.66	(849.19)	959.66	(3,815.98)	(2,395.86)	707.59	170.09	(923.65)	817.72	(4,097.09)	(3,371.54)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	121.31	407.22	(972.13)	307.04	(4,205.55)	(2,737.25)	93.78	371.99	(1,044.63)	164.85	(4,480.79)	(3,714.94)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	136.76	184.27	(1,044.48)	124.48	(4,150.14)	(2,600.82)	111.49	159.70	(1,079.14)	27.62	(4,261.64)	(3,336.13)
Paid up Equity Share Capital	8,576.94	8,576.94	8,576.94	8,576.94	8,576.94	8,576.94	8,576.94	8,576.94	8,576.94	8,576.94	8,576.94	8,576.94
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)						23,433.66						20,098.88
Earnings Per Share (after extra-ordinary item) (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- Basic & Diluted:	0.16	0.47	(1.22)	0.14	(4.84)	(3.03)	0.13	0.19	(1.26)	0.03	(4.96)	(3.89)
# Includes Net Profit of Continued and Discontinued Operations												
Note: 1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange(s) Website (www.bseindia.com) & (www.nseindia.com) and on the Company's Website (www.itdc.co.in) 2) The Financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended. 3) The Above Statement of Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 14 th February, 2022. 4) Earning per share is not annualized for the quarter ended December 31, 2021, September 30, 2021, and December 31, 2020. 5) Figures of the previous reporting periods have been re-grouped / re-classified wherever necessary to correspond with the figures of the current reporting period.												
For India Tourism Development Corporation Limited Sd/- Subhadepta Paul Chief Financial Officer Sd/- Piyush Tiwari Director (Commercial & Marketing)												
Date: 14.02.2022 Place: New Delhi												
(One stop solution for all your Travel, Tourism and Hospitality needs)												

POWERED BY **NPCI**
UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

**MRS. RAO SAYS,
"NEVER SCAN QR TO RECEIVE MONEY"**

Remember the UPI Safety Shield every time you make UPI payments

- 1 Enter UPI PIN ONLY to deduct money from your account. UPI PIN is NOT required for receiving money.
- 2 Check the receiver's name on verifying the UPI ID. Do NOT pay without verification.
- 3 Use UPI PIN ONLY on the app's UPI PIN page. Do NOT share UPI PIN anywhere else.
- 4 Scan QR ONLY for making payment and NOT for receiving money.
- 5 Do not download any screen sharing or SMS forwarding apps when asked upon by any unknown person and without understanding its utility.

If you are victim of cyber financial fraud, report immediately on helpline no. 155260 or 1930 and register complaint on National Cybercrime reporting portal - www.cybercrime.gov.in

Issued in public interest by National Payments Corporation of India

EASY TO USE TRUSTED BY CRORES

Scan QR to learn more about UPI Safety Shield

